



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276426
CG-DL-E-23092026-276426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4902]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4902]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2026

का.आ. 5093(अ).— केंद्रीय सरकार नाशक कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ- (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2026 कहा जा सकेगा।
2. यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- अनुसूची VI का संशोधन- अनुसूची VI में अंतिम प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी:-

क्रम संख्या	पौध प्रजातियाँ	पौध श्रेणी	उद्गम देश	अतिरिक्त घोषणाएं जिन्हें फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में शामिल किया जाना अपेक्षित है।	आयात की विशेष शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
809	(ii) <i>टैक्सस वालिचियना वर मैरेई</i>	डाईड नीडल (चिकित्सीय उद्देश्य के लिए पत्तियां)	नीदरलैंड (उद्गम देश फ्रांस)	a) <i>हेटेरोबेसिडियन एनोसम</i> b) <i>ओटिओरिन्चस सिंगुलारिस</i> (क्ले कलर्ड वीविल) c) <i>ओटिओरिन्चस सल्काटस</i> (बेल घुन) d) <i>फाइटोफथोरा रेमोरम</i> (सडन ओक डेथ (एसओडी)) e) <i>पिसोडेस कैस्टेनियस</i> (स्मॉल बैंडेड पाइन वीविल) f) <i>राइजोबियम राइजोजेन्स</i> (गॉल) g) <i>क्लोरोपुलविनेरिया फ्लोसीफेरा</i> (कैमेलिया कॉटनी स्केल) h) <i>ओटियोहिन्चस सैलिसिकोला</i> से मुक्त।	(i) संगरोध खरपतवार बीज, मिट्टी और अन्य पौधों के अवशेष से मुक्त। (ii) 18 घंटे तक 60 डिग्री सेल्सियस पर सुखाकर फसलोपरांत उपचार करना। उपचार को उद्गम/पुनः निर्यात वाले देश में जारी किए गए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र पर अनुलेखित किया जाना चाहिए।

[फा.सं. 18-22/2018-पीपी.II]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 भारत के राजपत्र में क्रमांक का.आ. 1322 (अ) दिनांक 18 नवंबर, 2003 को प्रकाशित और तत्पश्चात क्रमांक का.आ. 167 (अ), दिनांक 6 फरवरी 2004, का.आ. 427 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2004, का.आ. 644 (अ), दिनांक 31 मई 2004, का.आ. 263 (अ) का संशोधित किया गया था। दिनांक 25 फरवरी 2005, का.आ. 462 (अ), दिनांक 31 मार्च 2005, का.आ. 1121 (अ), दिनांक 14 जुलाई 2006, का.आ. 1353 (अ), दिनांक 31 जुलाई 2006, का.आ. 1873 (अ), दिनांक 31 अक्टूबर 2006, का.आ. 2074 (अ), दिनांक 6 दिसंबर 2006, का.आ. 2069 (अ), दिनांक 3 दिसंबर, 2007, का.आ. 3 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 2847 (अ), दिनांक 8 दिसंबर, 2008, का.आ. 2888 (अ), दिनांक 15 दिसंबर, 2008, का.आ. 2286 (अ), दिनांक 9 सितंबर, 2009, का.आ. 2390 (अ), दिनांक 16 सितंबर, 2009, का.आ. 3269 (अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2009, का.आ. 3298 (अ), दिनांक 24 दिसंबर, 2009, का.आ. 907 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2010, का.आ. 2095 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2010, का.आ. 2284 (अ), दिनांक 15 सितंबर, 2010, का.आ. 2516 (अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010, का.आ. 2711 (अ) दिनांक 4 नवंबर, 2010, का.आ. 3052 (अ) दिनांक 28 दिसंबर, 2010, का.आ. 887 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 2011, का.आ. संख्या 2845 (अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2011, का.आ. क्रमांक 296 (अ) दिनांक 17 फरवरी, 2012, का.आ. 2775 (अ) 23 नवंबर, 2012 का.आ. 799 (अ) दिनांक 21 मार्च, 2013, का.आ. 1378 (अ) दिनांक 28 मई, 2013, का.आ. 1531 (अ) दिनांक 14 जून, 2013, का.आ. 2919 (अ) दिनांक 26 सितंबर, 2013, का.आ. 1508 (अ) दिनांक 13 जून, 2014, का.आ. संख्या 1632 (अ) दिनांक 27 जून, 2014, का.आ. संख्या 2320 (अ) दिनांक 12 सितंबर, 2014, का.आ. संख्या 2542 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2014, का.आ. संख्या 2879 (अ) दिनांक 11 नवंबर, 2014, का.आ. संख्या 3114 (अ) दिनांक 10 दिसंबर, 2014, का.आ. संख्या 1413 (अ) दिनांक 26 मई, 2015, का.आ. संख्या 2496 (अ) दिनांक 15 सितंबर, 2015, का.आ. संख्या 101

(अ) दिनांक 13 जनवरी, 2016, का.आ. संख्या 608 (अ) दिनांक 7 मार्च, 2016 का.आ. संख्या 1873 (अ) दिनांक 25 मई, 2016, का.आ. संख्या 2192 (अ) दिनांक 20 जून, 2016, का.आ. संख्या 2248 (अ) दिनांक 29 जून, 2016, का.आ. संख्या 2453 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 2016, का.आ. संख्या 2614 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 2016 और का.आ. संख्या 264 (अ) दिनांक 12 जनवरी, 2017, का.आ. संख्या 364 (अ) दिनांक 3 फरवरी, 2017, का.आ. 1344 (अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2017, का.आ. 1475 (अ) दिनांक 8 मई, 2017, का.आ. 2019 (अ) दिनांक 21 जून, 2017 और का.आ. 2152 (अ) दिनांक 6 जुलाई, 2017, का. आ. संख्या 2752 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2017, का.आ. संख्या (अ), का.आ. संख्या 3293 (अ) दिनांक 6 अक्टूबर, 2017, दिनांक 7 नवंबर, 2017 को का.आ. संख्या 3556 (अ) और का.आ. संख्या 4082 (अ) दिनांक 27 दिसंबर, 2017, का.आ. संख्या 1248 (अ) दिनांक 20 मार्च, 2018, का.आ. संख्या 1873 (अ) दिनांक 10 मई, 2018, का.आ. संख्या 1930 दिनांक 15 मई, 2018, का.आ. संख्या 2059 (अ) दिनांक 24 मई, 2018, का.आ. संख्या 2286 (अ) दिनांक 4 जून, 2018 और का.आ. संख्या 3194 (अ) दिनांक 29 जून, 2018, का.आ. संख्या 3392 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 2018, का.आ. संख्या 3998 (अ) दिनांक 16 अगस्त, 2018, का.आ. संख्या 5158 (अ) दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 और का.आ. संख्या 5830 (अ) दिनांक 22 नवंबर, 2018, और का.आ. संख्या 6224 (अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2018, का.आ. संख्या 941 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 और का.आ. संख्या 1728 (अ) 6 मई, 2019 को, का.आ. संख्या 1817 (अ) दिनांक 24 मई, 2019, का.आ. संख्या 1954 (अ) दिनांक 11.06.2019, का.आ. संख्या 2525 (अ) दिनांक 15 जुलाई, 2019 और का.आ. संख्या 2603 (अ) दिनांक 18 जुलाई, 2019 और का.आ. संख्या 3141 (अ) दिनांक 29 अगस्त, 2019; का.आ. संख्या 3594 (अ) दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 और का.आ. संख्या 3845 (अ) दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 और का.आ. संख्या 4083 (अ) दिनांक 8 नवंबर, 2019 और का.आ. 4615 (अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2019 और का.आ. 352 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2020 81. का.आ. 488 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2020 82. का.आ. 953 (अ) दिनांक 2 मार्च, 2020 और का.आ. संख्या 1404 (अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2020, का.आ. संख्या 2390 (अ) दिनांक 20 जुलाई, 2020; का.आ. संख्या 3646 (अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 और का.आ. संख्या 4243 (अ) दिनांक 17 नवंबर, 2020 और का.आ. संख्या 681 (अ) दिनांक 10 फरवरी, 2021, का.आ. संख्या 1491 (अ) दिनांक 7 अप्रैल, 2021, का.आ. संख्या 2511 (अ) दिनांक 10 जून, 2021, का.आ. संख्या 2512 (अ) दिनांक 10 जून, 2021 और का.आ. संख्या 4265 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, का.आ. संख्या 1885 (अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2022, का.आ. संख्या 3456 (अ) दिनांक 26 जुलाई, 2022, का.आ. संख्या 3777 (अ) दिनांक 3 अगस्त, 2022, का.आ. संख्या 4551 (अ) दिनांक 26 सितंबर, 2022, का.आ. संख्या 4871 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2022, का.आ. संख्या 5167 (अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 का.आ. संख्या 5401 (अ) दिनांक 21 नवंबर, 2022 और का.आ. संख्या 5573 (अ) दिनांक 30 नवंबर, 2022, का.आ. संख्या 1801 (अ) दिनांक 21 अप्रैल, 2023 और का.आ.संख्या 2153 (अ) दिनांक 10 मई, 2023, का.आ.संख्या 2360 (अ) दिनांक 31 मई, 2023, का.आ. 2680 (अ) दिनांक 12 जून, 2023, का.आ. संख्या 3246 (अ) दिनांक 20 जुलाई, 2023, का.आ. नंबर 3682 (अ) दिनांक 16 अगस्त, 2023, का.आ. नंबर 3945 (अ) दिनांक 04 सितंबर, 2023, का.आ. नंबर 4082 (अ) दिनांक 14 सितंबर, 2023, का.आ. नंबर 4228 (अ) दिनांक 25 सितंबर, 2023, का.आ. नंबर 4366 (अ) दिनांक 06 अक्टूबर, 2023, का.आ. नंबर 4552 (अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 2023, का.आ. नंबर 4640 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, का.आ. 4739 (अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2023, का.आ. संख्या 4764 (अ) दिनांक 01 नवंबर, 2023, का.आ. संख्या 5389 (अ) दिनांक 19 दिसंबर, 2023, का.आ. 94 (अ) दिनांक 08 जनवरी, 2024, का.आ. 400 (अ) दिनांक 30 जनवरी, 2024, का.आ. 1591 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2024, का.आ. 1593 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2024, का.आ. 1601 (अ) दिनांक 02 अप्रैल, 2024, का.आ. 1602(अ) दिनांक 02 अप्रैल, 2024, का.आ. 2195(अ) दिनांक 05 जून, 2024, का.आ. 2221 (अ) दिनांक 07 जून, 2024, का.आ. 2477 (अ) दिनांक 19 जून, 2024, का.आ. 2914 (अ) दिनांक 22 जुलाई, 2024, का.आ. 2986 (अ) दिनांक 24 जुलाई, 2024, का.आ. 3551 (अ) दिनांक 22 अगस्त, 2024, का.आ. 3890 (अ) दिनांक 10 सितंबर, 2024, का.आ. 4261(अ) दिनांक 27 सितंबर, 2024, का.आ. 4916(अ) दिनांक 12 नवंबर, 2024, का.आ. 4995 (अ) दिनांक 11 नवंबर, 2024, का.आ. 500 (अ) दिनांक 27 जनवरी, 2025, का.आ. 499 (अ) दिनांक 27 जनवरी, 2025, का.आ. 532 (अ) दिनांक 30 जनवरी, 2025, का.आ. 678 (अ) दिनांक 07 फरवरी, 2025, का.आ. 976 (अ) दिनांक 18 फरवरी, 2025, का.आ. 944 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 2025, का.आ. 1089 (अ) दिनांक 04 मार्च, 2025, का.आ. 1765 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 2025, का.आ. 2772 (अ) दिनांक 20 जून, 2025, का.आ. 4641 (अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2025, का.आ. 5047 (अ) दिनांक 06 नवंबर, 2025, का.आ. 271 (अ) दिनांक 16 जनवरी, 2026, का.आ. 492 (अ) दिनांक 03 फरवरी, 2026 का.आ. 1645 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2026, का.आ. 2192 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2026, का.आ. 3828 (अ) दिनांक 09 जुलाई, 2026, का.आ. 4232 (अ) दिनांक 29 जुलाई, 2026, का.आ. 4770 (अ) दिनांक 25 अगस्त, 2026, का.आ. 4929 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2026 और का.आ. 4930 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 2026 को संशोधित।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture And Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5093(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. **Short title and Commencement.**— (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eleventh Amendment) Order, 2026.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. Amendment of Schedule VI - After the last entry in Schedule VI, the following entries will be inserted in namely:-

Sl. No.	Plant Species	Category of plant material	Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
809	(ii) <i>Taxus wallichiana</i> var. <i>mairei</i>	Dried Needles (Leaves) for therapeutic purpose	the Netherlands (country of origin France)	Free from: a) <i>Heterobasidion annosum</i> b) <i>Otiorhynchussingularis</i> (clay coloured weevil) c) <i>Otiorhynchus sulcatus</i> (vine weevil) d) <i>Phytophthora ramorum</i> (Sudden Oak Death (SOD)) e) <i>Pissodes castaneus</i> (small banded pine weevil) f) <i>Rhizobium rhizogenes</i> (gall) g) <i>Chloropulvinaria floccifera</i> (camellia cottony scale) h) <i>Otiorhynchus salicicola</i>	(i) Free from quarantine weed seeds, soil and other plant debris. (ii) Post-harvest treatment as drying at 60°C for 18 hours. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

[F.No. 18-22/2018-PP.II]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated

9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22nd November, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019, S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No.3845(E) dated 24th October, 2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 81. S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 82. S.O. 953 (E) dated 2nd March, 2020 2020 and S.O. No. 1404(E) dated 27th April, 2020, S.O. No.2390(E) dated 20th July, 2020; S.O. No.3646(E) dated 14th October, 2020 and S.O. No.4243(E) dated 17th November, 2020 and S.O. No.681(E) dated 10th February, 2021, , S.O.No.1491(E) dated 7th April, 2021, S.O. No.2511(E) dated 10th June, 2021, S.O. No.2512(E) dated 10th June, 2021 and S.O. No.4265(E) dated 13th October, 2021, S.O.No.1885(E) dated 5th April, 2022, S.O. No 3456 (E) dated 26th July, 2022, S.O. No. 3777 (E) dated 3rd August, 2022, S.O. No. 4551 (E) dated 26th September, 2022, S.O. No. 4871 (E) dated 13th October, 2022, S.O. No. 5167 (E) dated 28th October, 2022. S.O. No. 5401 (E) dated 21st November, 2022 and S.O. No. 5573 (E) dated 30th November, 2022, S.O.No.1801 (E) dated 21st April, 2023 and S.O.No.2153 (E) dated 10th May, 2023, S.O.No.2360 (E) dated 31st May, 2023, S.O 2680 (E) dated 12th June, 2023, S.O. No. 3246 (E) dated 20th July, 2023, S.O. No. 3682 (E) dated 16th August, 2023, S.O. No. 3945 (E) dated 04th September, 2023, S.O. No. 4082 (E) dated 14th September, 2023, S.O. No. 4228 (E) dated 25th September, 2023, S.O. No. 4366 (E) dated 06th October, 2023, S.O. No. 4552 (E) dated 11th October, 2023, S.O. No. 4640 (E) dated 19th October, 2023, S.O. 4739 (E) dated 27th October, 2023, S.O. No. 4764 (E) dated 01st November, 2023, S.O. No. 5389 (E) dated 19 December, 2023, S.O. 94(E) dated 08th January, 2024, S.O. 400(E) dated 30th January, 2024, S.O. 1591(E) dated 28th March, 2024, S.O. 1593(E) dated 28th March, 2024, S.O. 1601(E) dated 02nd April, 2024, S.O. 1602(E) dated 02nd April, 2024, S.O. 2195(E) dated 05th June, 2024, S.O. 2221(E) dated 07th June, 2024, S.O. 2477(E) dated 19th June, 2024, S.O. 2914(E) dated 22nd July, 2024, S.O. 2986(E) dated 24th July, 2024, S.O. 3551(E) dated 22nd August, 2024, S.O. 3890(E) dated 10th September, 2024, S.O. 4261(E) dated 27th September, 2024, S.O. 4916(E) dated 12th November, 2024, S.O. 4995(E) dated 11th November, 2024, S.O. 500(E) dated 27th January, 2025, S.O. 499(E) dated 27th January, 2025, S.O. 532(E) dated 30th January, 2025, S.O. 678(E) dated 07th February, 2025, S.O. 976(E) dated 18th February, 2025, S.O. 944(E) dated 21st February, 2025, S.O. 1089(E) dated 04th March, 2025, S.O. 1765(E) dated 16th April, 2025, S.O. 2772(E) dated 20th June, 2025, S.O. 4641(E) dated 09th October, 2025, S.O. 5047(E) dated 06th November, 2025, S.O. 271(E) dated 16th January, 2026, S.O. 492(E) dated 03rd February, 2026 S.O. 1645(E) dated 27th March, 2026, S.O. 2192(E) dated 30th April, 2026, S.O. 3828(E) dated 09th July, 2026, S.O. 4232(E) dated 29th July, 2026, S.O. 4770(E) dated 25th August, 2026, S.O. 4929(E) dated 31st August, 2026 and S.O. 4930(E) dated 31st August, 2026.